

## बिहार मार्च सामयिकी

### 1. बिहार प्रथम राज्य है जिसके पास दो हरित शहर हैं।

- बिहार निश्चित रूप से भारत का पहला राज्य है, जिसके पास दो हरित ऊर्जा-कुशल शहर, बोधगया और राजगीर हैं। 2023 से, वे अपनी तरह की अक्षय ऊर्जा पहल के माध्यम से सौर ऊर्जा प्राप्त करेंगे।
- हरित ऊर्जा आपूर्ति, भारत के सौर ऊर्जा निगम (SECI) द्वारा विकसित की जाएगी।
- पटना में कई सरकारी कार्यालय जैसे उच्च न्यायालय, संग्रहालय और विद्युत भवन भी हरित ऊर्जा से चलाए जाएंगे।
- राज्य सरकार, परियोजना के कार्यान्वयन के लिए भागलपुर और लखीसराय में 500 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण करेगी।

### 2. "इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति, 2021" को लागू करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बना।

- बिहार मंत्रिमंडल ने राज्य की अपनी इथेनॉल नीति को 'इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति' कहा है। यह केंद्र की जैव नीति, 2018 की राष्ट्रीय नीति के अनुरूप है।
- यह नीति बिहार को मक्का, गुड़, टूटे चावल और सड़े हुए अनाज से सीधे इथेनॉल बनाने की अनुमति देती है।
- बिहार वर्तमान में भारत में 5वां उच्चतम इथेनॉल उत्पादक राज्य है और हर साल लगभग 12,000 करोड़ लीटर इथेनॉल का उत्पादन करता है और इस नीति के माध्यम से बिहार में प्रति वर्ष लगभग 50 करोड़ लीटर इथेनॉल का उत्पादन करने का लक्ष्य है।

### 3. बिजली मंत्रालय ने बिहार में ग्राम उजाला का शुभारंभ किया।

- केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आर.के. सिंह ने, बिहार के आरा में 'ग्राम उजाला' का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम के तहत ग्रामीण ग्राहकों को 3 साल की वारंटी के साथ 1.5 करोड़ एलईडी दी जाएगी।
- इस योजना के तहत, सरकार ग्रामीण इलाकों में दुनिया के सबसे सस्ते एलईडी बल्बों की पेशकश 10 अगस्त को करेगी।
- यह भारत में कार्बन क्रेडिट का पहला कार्यक्रम है।

### 4. पटना में जल्द ही, भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र खुलेगा।

- बिहार में पटना विश्वविद्यालय के परिसर में, एशिया का और भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र (NDRC) खुलेगा। बिहार दुनिया की आधी नदी डॉल्फिन की आबादी का घर है।

### 5. बिहार के नए मुख्य सचिव



- अरुण कुमार सिंह (IAS-1985 बैच) को बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। वह आईएएस दीपक कुमार का स्थान लेंगे।

**6. विनोद कापरी की नई पुस्तक "1232 किमी: द लॉन्ग जर्नी होम" रिलीज होने जा रही है।**

- यह पुस्तक गाजियाबाद के प्रवासी की उत्तर प्रदेश से सहरसा जाने की यात्रा के बारे में है, जो लगभग 1232 किमी है।
- यह बिहार के सात प्रवासियों की वास्तविक कहानी है जो अपनी साइकिल पर सात-दिन, सात-रात की यात्रा पर निकलते हैं।
- काविड-19 के कारण लॉकडाउन की पहली वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए, हार्पर कॉलिन्स इंडिया प्रकाशन ने इस पुस्तक के विमोचन की घोषणा की।

gradeup



**Gradeup Bihar State Exams Green Card Subscription**  
(BPSC, Bihar SI, Bihar SSC etc.)

Get unlimited access to all 40+ mock tests